

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

H

Sr. No. of Question Paper : 7826

Unique Paper Code : 2414002006

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : Common Group Paper

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any 6 questions.
3. Part of question to be attempted together.
4. All questions carry equal marks.
5. Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये ।
3. प्रश्न के भाग को एक साथ कीजिए ।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. What are financial objectives and why are they important in financial planning?
2. "The volatility of the rupee's value over time causes reasonable people to choose immediate money above future money." Elucidate.
3. "Savings and investments are essential for managing an individual's personal finances." Elaborate on the significance of commencing at an early stage.
4. Define Mutual Funds. What kind of investment strategies do Mutual funds provide?

P.T.O.

5. Define the term "life Insurance". Give an explanation of how insurance may assist reduce the risk of loss.
 6. Discuss the "pensions plan". Examine the government-run pension programs that are offered to the general public.
 7. Write a short note on **any two** of the following :
 - (a) Risk Management
 - (b) Personal Tax Planning
 - (c) Digital Currency
-
1. वित्तीय उद्देश्य क्या हैं और वे वित्तीय नियोजन में क्यों महत्वपूर्ण हैं?
 2. "समय के साथ रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण समझदार लोग भविष्य के धन के बजाय तत्काल धन का चुनत हैं।" स्पष्ट कीजिए।
 3. "बचत और निवेश किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं।" प्रारंभिक चरण में शुरू करने के महत्व पर विस्तार से बताइये।
 4. म्यूचुअल फंड को परिभाषित कीजिए। म्यूचुअल फंड किस तरह की निवेश रणनीति प्रदान करते हैं?
 5. "जीवन बीमा" शब्द को परिभाषित कीजिए। इस बात की व्याख्या कीजिए कि बीमा किस तरह से नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
 6. "पेंशन योजना" पर चर्चा कीजिए। आम जनता को दिए जाने वाले सरकारी पेंशन कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए।
 7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (क) जोखिम प्रबंधन
 - (ख) व्यक्तिगत कर नियोजन
 - (ग) डिजिटल मुद्रा